

February 06, 2021

To,
The Manager
Bombay Stock Exchange Limited
Corporate Relationship Department
Phirozee Jeejeebhay Tower
Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001
BSE Scrip Code:533260

To,
The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C/1, Block G
Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai-400 051
NSE Symbol: careerp

Sub: Submission of Newspaper publication of Board Meeting

Dear Sir/Madam,

In compliance with the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of Newspaper advertisement "Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) Newspaper in which Notice of the meeting of the Board of Directors of the Company which is to be held on Friday, 12th February, 2021 is published.

Thanking you,

For Career Point Limited

1 11.

GM (Corporate & Legal Affairs) & Co. Secretary

Enclosed: As above

FINANCIAL EXPRESS

O PXIL **Power Exchange India Limited**

Sumer Plaza, Unit No.901,9th floor, Marol Maroshi Road, Andheri (East). Mumbai-400059. India Tel:+ 91 22 40096667/87 Fax:+ 91 22 40096633/90 Email: info@pxil.co.in, CIN:U74900MH2008PLC179152

Trading Month January - 2021									
rkets	D/		INTR	ADAY	ANYDAY				
ided	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)			
1in	1.51	0.02	2.39	0.36	2.02	11.07			
lax	6.71	1.22	6.35	8.31	5.75	33.08			
vg	3.91	0.40	3.84	3.03	3.24	19.12			
otal		7.63	87 95	33.35		592.75			

BEST AGROLIFE LIMITED CIN: L74110DL1992PLC116773 Regd Office: S-1A, Ground Floor, Bhagwan Dass Nagar, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026 Ph: +91 9650507235 | Email: info@bestagrolife.com

Website: www.bestagrolife.com

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 11th February, 2021 at 03:00 p.m. to consider and take on record, inter-alia Un-audited Financial Results for the guarter and nine-month ended 31st December, 2020. The Board Meeting notice can be accessed at Company's website

www.bestagrolife.com under Investor Zone Tab - Corporate Announcements head and at website of BSE viz. www.bseindia.com.

*(1.38)

*0.19

(4.97)

For Best Agrolife Limited Astha Wahi Company Secretary and Compliance Officer

Regd. Office: 605-607, Shrikant Chambers, 6th Floor, Phase-I, Adjacent to R. K. Studios, Sion-Trombay Road, Mumbai- 400 071. CIN: L45400MH2012PLC234318 Contact No: 022 - 71733717; Website: www.capacite.in; Email id: compliance@capacite.in NOTICE

Notice is hereby given pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, to inform that a meeting of the Audit Committee and that of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, February 11, 2021, through Video Conferencing, inter-alia, to consider and take on record the Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) along with Limited Review Report from Statutory Auditors of the Company for the Quarter and nine months ended December 31, 2020. Information in this regard is also available on website of the Company www.capacite.in

and on the websites of the Stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com For Capacit'e Infraprojects Limited

Sd/-Place: Mumbai Varsha Malkani Dated: February 05, 2021 Company Secretary

CAREER POINT LIMITED

Registered Office: CP Tower 1, Road No. 1, IPIA, Kota, Rajasthan 324005 CIN: L72200RJ2000PLC016272, Phone: 0744-3040000, Fax: 0744-3040050 Website: www.cpil.in, Email: investors@cpil.in

NOTICE

Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, February 12, 2021, at its Registered Office, to consider various items inter alia Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter ended 31 December, 2020, declaration of interim dividend (if any) and shifting of Registered office from State of Rajasthan to State of Punjab. Trading window already closed w.e.f. 01/01/2021 till 14/02/2021. The said notice may be accessed on the Company's website www.cpil.in and may also be accessed on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com

For Career Point Limited Tarun Kumar Jain Place : Kota (Rajasthan) GM (Corporate & Legal Affairs) & Company Secretary Date: February 05, 2021

SUZLON FINANCIAL RESULT Q3 FY21

Date: 05/02/2021

Place: New Delhi

		Quarter	ended	Nine months ended	Year ended	
Particulars		December 31, 2020	December 31, 2019	December 31, 2020	March 31, 2020	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total income from operations	959.52	672.99	2,224.44	3,000.42	
2	Profit / (loss) before exceptional items and tax	(110.89)	(739.04)	(642.99)	(2,618.06)	
3	Profit / (loss) before tax	(110.89)	(742.06)	163.88	(2,683.95)	
4	Net profit / (loss) after tax, and share in profit / (loss) of associate and joint ventures	(118.06)	(742.91)	157.84	(2,691.84)	
5	Total comprehensive income / (loss)	(72.96)	(705.11)	266.82	(2,551.15)	
6	Paid up equity share capital (Face value of ₹ 2/- each)	1,672.93	1,063.95	1,672.93	1,063.95	
7	Earnings / (loss) per equity share (EPS) (*not annualised) - Basic (₹)	*(0.14)	*(1.38)	*0.22	(4.97)	

*(0.14)

		Quarter	ended	Nine months ended	Year ended	
Particulars		December 31, December 31, 2020 2019		December 31, 2020	March 31, 2020	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total income from operations	459.65	93.33	766.11	612.13	
2	Profit / (loss) before exceptional items and tax	(229.22)	(710.98)	(983.40)	(2,483.93	
3	Profit / (loss) before tax	(229.22)	(1,045.70)	(176.53)	(3,275.98	
	Profit / (loss) after tax	(229.22)	(1,045.70)	(176.53)	(3,276.63	
	Total comprehensive income / (loss)	(231.28)	(1,042.56)	(179.88)	(3,271.52	
	Paid up equity share capital (Face value of ₹ 2/- each)	1,672.93	1,063.95	1,672.93	1,063.9	
	Earnings / (loss) per equity share (EPS) (*not annualised)	NO. ASSOCIATION OF THE PARTY OF		WATERVOOR RECORD		
1	- Basic (₹)	*(0.28)	*(1.97)	*(0.25)	(6.16	
-1	- Diluted (₹)	*(0.28)	*(1.97)	*(0.25)	(6.16	

Place: Pune

Registered Office: Suzlon Energy Limited

Date: February 04, 2021

[CIN: L40100GJ1995PLC025447]

Diluted (₹)

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 04, 2021. The statutory auditors of the Company have carried out a limited review of the above results for the quarter and nine months ended December 31, 2020.

The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 are available on the website of the Company, www.suzlon.com and website of the Stock Exchanges, www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Suzlon Energy Limited

Tulsi R. Tanti Chairman & Managing Director DIN No: 00002283

More than 18.8 GW of installations | Footprint across 18 countries | Largest product portfolios | R&D across Netherlands, India, Germany and Denmark Leading global renewable energy player offering end-to-end solutions. To know more visit us at: www.suzlon.com I Join us on 🔾 🔞 🚯

Regd. Office: "Suzlon", 5, Shrimali Society, Near Shri Krishna Complex, Navrangpura, Ahmedabad-380009

Tel.:+91.79.6604 5000 / +91.79.2640 7141, Fax:+91.79.2656 5540, +91.79.2644 2844

website: www.suzlon.com; email id: investors@suzlon.com

FORTIS HEALTHCARE LIMITED

(CIN: L85110PB1996PLC045933) Regd. Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase – VIII, Mohali-160062 Tel: +91 172 5096001; Fax No: +91 172 5096221

Website: www.fortishealthcare.com; Email: secretarial@fortishealthcare.com

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

(Rs. in Lakhs except EPS)

	Consolidated					
Particulars	Quarter Ended December 31, 2020	Period Ended December 31, 2020	Quarter Ended December 31, 2019			
Total Income from Operations	118,720	281,790	117,384			
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10,313	(6,814)	4,814			
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10,313	(6,708)	4,814			
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,388	(11,853)	(6,932)			
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,999	(9,971)	(5,140)			
Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per share)	75,496	75,496	75,496			
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year (as at March 31, 2020)			590,613			
Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)		>				
(a) Basic	0.40	(2.03)	(1.01)			
(b) Diluted	0.40	(2.03)	(1.01)			

Note:

	Standalone					
Particulars	Quarter Ended December 31, 2020	Period Ended December 31, 2020	Quarter Ended December 31, 2019			
Turnover	18,436	43,805	17,386			
Profit / (loss) Before Tax	3,241	6,922	1,067			
Profit / (Loss) After Tax	2,125	4,530	4,640			

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com and that of the company at www.fortishealthcare.com.

Fortis Healthcare Limited For and on Behalf of Board of Directors

Dr. Ashutosh Raghuvanshi Managing Director & CEO DIN No. 02775637

NIIT LIMITED

Place : Gurugram

Date: February 05, 2021

Regd Office: 8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravidas Marg, Kalkaji, New Delhi-110019 Ph.: 91 (11) 41675000 Fax: 91 (11) 41407120 Website: http://www.niit.com Email: investors@niit.com Corporate Identity Number: L74899DL1981PLC015865

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and year to date ended December 31, 2020

(Rs. in Millions, except per share data)

		Consolidated					Standalone						
			Quarter ende	ed d	Period	dended	Year ended		Quarter ended		Period	ended	Year ended
S. No.		3 Months ended December 31, 2020	Preceding 3 months ended September 30, 2020	Correspond- ing 3 months ended December 31, 2019	current period	Year to date figures for the previous period rended December 31, 2019	Previous year ended March 31, 2020	3 Months ended December 31, 2020	Preceding 3 months ended September 30, 2020	Corresponding 3 months ended December 31, 2019	Year to date figures for the current period ended Decem- ber 31, 2020	Year to date figures for the previous period ended December 31, 2019	Previous year ended March 31, 2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited (refer notes 4 and 5)	Unaudited	Unaudited Audited (refer notes 4 and 5)	Audited	Audited Unaudited	Unaudited	Unaudited (Restated - refer note 4)	Unaudited	Unaudited (Restated - refer note 4)	Audited
1	Total Income from Operations	2,533.50	2,188.70	2,438.84	6,739.84	6,780.11	8,891.83	929.77	865.05	1,010.20	2,592.03	3,097.35	4,008.57
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	563,34	375.42	376.10	1,337.34	1,162.12	1,216.10	293.36	254.39	363.79	883.62	1,119.23	1,415.61
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	556.70	379.65	376.10	1,326.34	14,172.20	14,132.92	114.09	181.82	363.79	597.77	15,699.52	15,217.78
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (before discontinued operations)	460.86	300.49	328.26	1,092.98	13,505.04	13,577.30	65.86	134.66	335.61	440.05	14,155.70	13,777.69
5	(Loss) after tax from discontinued operations	(47.27)	(40.61)	(58.50)	(125.91)	(239.12)	(305.46)	(7.93)	(4.48)	(10.80)	(17.59)	(86.12)	(94.05)
6	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	413.59	259.88	269.76	967.07	13,265.92	13,271.84	57.93	130.18	324.81	422.46	14,069.58	13,683.64
7	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	382.95	248.70	289.42	933.08	13,272.85	13,310.14	44.83	148.26	317.57	433.31	14,049.94	13,649.44
8	Paid-up equity share capital(face value of Rs. 2 each, fully paid)	283.63	283.52	283.03	283.63	283.03	283.03	283.63	283.52	283.03	283.63	283.03	283.03
9	Reserves excluding revaluation reserves						14,924.51						15,044.22
10	Earnings/(Loss) Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised, in Rs.) Continuing Operations - Basic	3.26	2.13	2.67	7.70	81.19	84.78	0.47	0.95	2.07	3.10	85.09	86.01
	- Diluted	3.20	2.11	2.67	7.63	80.74	84.31	0.46	0.94	2.06	3.07	84.61	85.53
	Discontinued Operations - Basic - Diluted	(0.33) (0.33)	(0.29) (0.29)	(0.47) (0.47)	(0.89) (0.89)	(1.44) (1.44)	(1.91) (1.91)	(0.06) (0.06)	(0.03) (0.03)	(0.09) (0.09)	(0.12) (0.12)	(0.52) (0.52)	(0.59) (0.59)
	Continuing and Discontinued Operations - Basic - Diluted	2.93 2.87	1.84 1.82	2.20 2.20	6.81 6.74	79.75 79.30	82.87 82.40	0.41 0.40	0.92 0.91	1.98 1.97	2.98 2.95	84.57 84.09	85.42 84.94

- Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/ year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly
- / year to date Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website, www.niit.com. The above results were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 05, 2021.
- Total Income from Operations represent revenue from operations.
- During the previous year, in line with its restructuring strategy of subsidiaries, the Company signed a business (excluding cash and cash equivalents) from its wholly owned subsidiary NIIT Institute of Process Excellence Limited. Further, in line with its stated long term strategy of reducing exposure to low margin, capital intensive government business, the Company had decided not to pursue new skill contracts in its wholly owned subsidiary NIIT Yuva Jyoti Limited ("NYJL") and discontinue operations post completion of continuing commitments. During the previous year the Company took over the intellectual property rights and other assets and liabilities from NYJL through transfer agreements. The above transactions were treated as business combination and the Company had applied pooling of interest method to account for such Business Combination. Based on the requirements of Appendix C to Ind AS 103, the Company has restated financial
 - information appearing in these financial results in respect of guarter and period ended December 31, 2019. In pursuance of applicable accounting standard (IND AS - 105), the net results (i.e. revenue minus expenses) of NYJL operations for the guarter are disclosed separately under 'Discontinued Operations' along with corresponding restatement of the financial
- results for the guarter and period ended December 31, 2019. During the previous year, the Group has decided to divest Mindchampion Learning Systems Limited (MLSL), to a strategic / financial investor. In the interim period, NIIT remains committed to support MLSL for continuity of operations and value creation for all stake holders. In pursuance of applicable accounting standard (IND AS - 105), the net results for the quarter of MLSL operations (revenue less expenses) are disclosed separately under 'Discontinued Operations', along with corresponding reclassification of the consolidated financial results for the quarter and period ended December 31, 2019.

For NIIT Limited Vijay K Thadani

By order of the Board

Place: Gurugram Date: February 05, 2021 financialexp.epapr.in

Vice-Chairman & Managing Director

जैश का आतंकवादी दिल्ली हवाईअड्डे से गिरफ्तार

श्रीनगर, ५ फरवरी (भाषा)।

आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक सक्रिय सदस्य को कतर से भारत वापस भेजे जाने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया।

पलिस ने टवीट किया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा निवासी मुनीब सोफी को कुलगाम जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोफी पाकिस्तानी आतंकवादी वलीद भाई के लिए काम करता था, जिसे सुरक्षाबलों ने पिछले साल कुलगाम जिले में मुठभेड़ में मार गिराया था। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, कुलगाम पुलिस ने आतंकवादी संगठन

जैश-ए-मोहम्मद के वांछित शीर्ष सक्रिय सदस्य, बिजबेहरा निवासी मुनीब सोफी को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिसे शुक्रवार को कतर से वापस भेजा गया था। वह पाकिस्तानी आतंकवादी वलीद भाई के लिए काम करता था, जो पिछले साल कुलगाम जिले में मुठभेड़ में मारा गया था।

उन्होंने बताया कि वह जैश-ए-मोहम्मद के लिए धन जुटाने के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में भी संलिप्त है। उन्होंने कहा कि उक्त मामले की जांच के दौरान आतंकवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि वह अन्य सहयोगियों के साथ

मिलकर कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में जैश-ए-मोहम्मद के लिए धन एकत्र करता

प्रवक्ता ने बताया कि जमा की गई राशि कतर में रहने वाले सोफी को भेजी जाती थी. जो पाकिस्तानी आतंकवादी वलीद भाई को पाकिस्तान से हथियारों की खरीद के लिए धन भेजता था। जैश-ए-मोहम्मद से जडे वलीद भाई को पिछले साल कुलगाम में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया। प्रवक्ता ने कहा कि सोफी के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस और गैर-जमानती वारंट, संबंधित अदालत ने जारी किया है। उसके बाद कतर से भारत वापस भेजे जाने के बाद उसको नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया।

कोविड-19: देश में संक्रमण के 12,408 नए मामले

नई दिल्ली, 5 फरवरी (भाषा)।

भारत में एक दिन में कोरोना के 12,408 नए मामले सामने आए जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़ कर 1.08 करोड़ से अधिक हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से

शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अब मरीजों की मौत हो गई जिसके बाद मृतकों की तक देश में कोविड-19 के 1,04,96,308 संख्या बढ़ कर 1,54,823 पर पहुंच गई। मरीज ठीक हो चुके हैं।

1,08,02,591 हो गए। एक दिन में 120 और में 1,51,460 मरीज उपचाराधीन हैं।

मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वाले सुबह आठ बजे तक के आंकड़ों के मरीजों की दर 97.16 फीसद है और महामारी अनुसार संक्रमण के कुल मामले बढ़ कर से मौत की दर 1.43 फीसद है। वर्तमान में देश

पिछले साल जनवरी से सितंबर के बीच रेल पटरियों पर 6,290 लोगों की हुई मौत

इंदौर (मध्य प्रदेश) ५ फरवरी (भाषा)

सुचना के अधिकार (आरटीआइ) से पता चला है कि देश में पिछले साल जनवरी से सितंबर के बीच अनिधकृत तौर पर रेल पटरियां पार करने के दौरान हुए अलग-अलग हादसों में 6,290 लोगों की मौत हुई,

जबिक 606 अन्य घायल भी हए। गौर करने लायक बात यह है कि नौ महीनों की इस *इस अवधि* में पटरियों अवधि में पटरियों पर हादसों में इतनी बड़ी पर हादसों में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान तब गई, जब तादाद में लोगों की जान कोविड-19 के प्रकोप के कारण सीमित तब गई, जब कोविड–19 संख्या में ट्रेनें चल रही थीं। नीमच के के प्रकोप के कारण सीमित आरटीआइ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने संख्या में ट्रेनें चल रही थीं शुक्रवार को बताया कि पटरियां पार करने से जुड़े हादसों में हताहत हुए लोगों के बारे में *गौड़ ने कहा,* मुझे उन्हें रेल मंत्रालय से सूचना के अधिकार के आरटीआइ के तहत भेजे तहत जानकारी मिली है। गौड़ के मुताबिक गए जवाब में स्पष्ट नहीं यह ब्योरा संबंधित राज्यों की शासकीय किया गया है कि संबंधित रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे बोर्ड हताहतों में उन लोगों के के सुरक्षा निदेशालय के आंकड़ों के हवाले आंकड़े भी शामिल हैं या से दिया गया है। नहीं, जो खुदकुशी के

गौड़ ने कहा कि मुझे आरटीआइ के तहत भेजे गए जवाब में स्पष्ट नहीं किया गया है कि संबंधित हताहतों में उन लोगों के आंकड़े भी शामिल हैं या नहीं, जो खुदकुशी

पहुंचे थे। के इरादे से रेल पटरियों पर पहुंचे थे। रेल पटरियों को अनधिकृत तौर पर पार करना रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत कानूनन अपराध है। इसके साथ ही इसके तहत छह महीने तक के कारावास और 1,000

इरादे से रेल पटरियों पर

स्टैण्डर्ड सरफैक्टेंटस लिमिटेड सी.आई.एन. : L24243UP1989PLC010950 पंजीकृत कार्यालय : 8/15, आर्य नगर, कानपुर-02 ई-मेल : secretarial@standardsurfactants.com;

रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

वेबसाईट : www.standardsurfactants.com सूचना सेबी (सूचीय दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकता) विनिमय 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29, व अनुपालन में एतदहारा खुचित किया जाता है की कंपनी के को पंजीकृत कार्यालय में साथ 4:30 बजे आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 विसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही/नी मासिक के लिए कंपनी के

कथित सूचना कंपनी की वेदसाइट http://www.standardsurfactants.com आर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइ http://www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

अनंकेक्षित वितीय परिणामों पर विधार तथा अनुमोदन किये

बोर्ड के आदेशानुसार वास्ते स्टैण्डर्ड सरफैक्टेंट्स लि0 हस्ता०/-दिनांक : 05.02.2021 (शिवांश तिवारी) स्थान : कानपुर कम्पनी सचिव

2. कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि 21.04.1994

6. इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि 13.02.2021

7. कॉपोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने 03.02.2021

ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है

होने वाला पता तथा ईमेल

11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि

का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

तिथि: 06.02.2021

का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या

प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता

3. वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट कम्पनी रजिस्ट्रार- दिल्ली

4. कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट ऋणधारक U74899DL1994PLC058528

प्रॉफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या |CO1/2017-2018/10298

CAREER POINT LIMITED

Registered Office: CP Tower 1, Road No. 1, IPIA, Kota, Rajasthan 324005 CIN: L72200RJ2000PLC016272, Phone: 0744-3040000, Fax: 0744-3040050 Website: www.cpil.in, Email: investors@cpil.in

NOTICE

Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, February 12, 2021, at its Registered Office, to consider various items inter alia Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter ended 31 December, 2020, declaration of interim dividend (if any) and shifting of Registered office from State of Rajasthan to State of Punjab. Trading window already closed w.e.f. 01/01/2021 till 14/02/2021. The said notice may be accessed on the Company's website www.cpil.in and may also be accessed on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com


Place : Kota (Rajasthan) Date: February 05, 2021

For Career Point Limited Tarun Kumar Jain GM (Corporate & Legal Affairs) & Company Secretary

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड

(CIN: L31102DL1957PLC193993)

पंजीकृत कार्यालयः ए-18, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस-2, नई दिल्ली-110020, फोन नः 91-11-4161 0660 वेबसाईटः http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited



भारतीय प्रतिमृति और विनिगय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि अन्य मृद्दों के साथ साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीनों के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने व अनुमोदित करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी, 2021 को किया जाएगा। इसकी सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा www.nseindia.com तथा www.bseindia.com में उपलब्ध है।

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड के लिए

मनोज प्रसाद सिंह कंपनी सचिव

KARVY FINANCE

नई दिल्ली

फरवरी 5, 2021

(अचल सम्पत्ति के लिए) कॉर्पोरेट कार्यालयः कार्वी फाइनांसियल सर्विसेस लि. 705/706, 7वाँ तल, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, संत दानेश्वर मार्ग,

गुरु नानक हॉस्पीटल के सामने, बान्द्रा (ई), मुम्बई-400051, ई-मेल: abdullatif.patel@karvy.com

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम, 2002) के अंतर्गत कार्वी फाइनांसियल सर्विसेर लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 17 मार्च, 2020 जारी कर श्री सुन्दर जैन एवं श्रीमती प्रभा जैन को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 7372441/- (रुपए तिहत्तर लाख बहत्तर हजार चार सौ इकतालिस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 23 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियं का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तिये का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 7372441/- तथा अनुबंध के अनुसार उस पर ब्याज की राशि के लिए कार्वी फाइनांसियल सर्विसेस लि. के चाज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम	ऋण अनुबंध सं./ ऋणधारकों/	मांग सूचना	ली गई कब्जा की	अचल सम्पत्तियो
सं.	सह-ऋण-धारक का नाम	तिथि एवं राशि	तिथि एवं प्रकार	का विवरण
		,	·	
1.	ऋण अनुबंध सं. 504947, 514886	17 मार्च, 2020 एवं	21.1.2021	''मानसरोवर पार्क'' के नाम से विदित आवासीय
	1. क. श्री सुन्दर जैन, जैनसन एण्टर प्राईजेज के	रु. 7372441/−	भौतिक कब्जा	कॉलोनी, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 की
	प्रॉप. श्री प्रेम चन्द जैन, जे-61-ए, मानसरोवर	(रुपए तिहत्तर लाख		आबादी में ग्राम चन्द्रावली ऊर्फ शाहदरा के क्षेत्र में
	पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032	बहत्तर हजार चार सौ		स्थित अंतिम मंजिल तक निर्माण के अधिकार के
	1. ख. मै. जैनसन एण्टरप्राईजेज, जे-61-ए,	इकतालिस मात्र)		साथ साइट के अनुसार शामिल खसरा नं. 290
	मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032			मिन में से जे-61 ए, भूमि क्षेत्रफल माप 50 वर्ग
	2. श्रीमती प्रभा जैन, पत्नी सुन्दर जैन, जे-61-			यार्ड्स में स्थित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा,
	ए, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032			चौहद्दीः पूर्वः रोड, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः
				सम्पत्ति सं. 62, दक्षिणः सम्पत्ति सं. 60

स्थानः दिल्ली तिथि: 5.2.2021

प्रपत्र बी

सार्वजनिक उद्घोषणा

[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया)

विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]

एसोसिएटेड एप्लिएंसेस लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

5. कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा डी- 218, भू तल, सरिता विहार, नई दिल्ली- 110076

8. परिसमापक के रूप में कार्यरत इन्सॉल्वेन्सी संदीप कुमार भट्ट, पंजी.सं.: IBBI/IPA-002/IP-N01064-

9. बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा 83-बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार फेज-1, नई दिल्ली-110091

10. परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त 83-बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार फेज-1, नई दिल्ली-110091

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-III ने

13.02.2021 को एसोसिएटेड एप्लिएंसेस लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।

एतदुद्वारा एसोसिएटेड एप्लिएंसेस लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं.

10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 05.03.2021 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्टॉनिक माध्यमों से अपने दावे

स्थानः नई दिल्ली पंजी.सं.: IBBI/IPA-002/IP-N01064-CO1/2017-2018/10298

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

5.3.2021

ईमेलः skbmica@gmail.com

ईमेलः skbmica@gmail.com

परिसमापक का नाम एवं हस्ताक्षरः संदीप कुमार भट्ट

एसोसिएटेड एप्लिएंसेस लिमिटेड

पैटबैक बिजनेस लिमिटेड

(पूर्व में क्रेजीप्राइसिंग ऑनलाइन सर्विसेस लिमिटेड के नाम से विदित) CIN: L74999DL1984PLC018747 पंजी. कार्या.: शॉप नं. 325, प्लॉट नं. 3, अग्रवाल प्लाजा, डीडीए कम्युनिटी सेन्टर, सेक्टर-14,

रोहिणी, नई दिल्ली-110085 फोनः 011-27860680, ई-मेल आईडीः crazypricingdel@gmail.com

वेबसाईटः www.crazypricingonline.com 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

				(
क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2020 (अनंकेक्षित)	31.12.2020	पूर्व वर्ष 31.12.201 में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने (अनंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	0.44	1.34	0.45
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(1.51)	(5.49)	(0.03)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(1.51)	(5.49)	(0.03)
	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)		(5.49)	(0.03)
5.	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)		(5.49)	(0.03)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	24.80	24.80	24.80
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)		(6.46)	(4.26)
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं) क) मूल :	(0.61)	(2.22)	(0.01)

ख) तरल

1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 वे अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। इन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.msei.in) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.crazypricingonline.com) पर उपलब्ध हैं।

(0.61)

(2.22)

) उपरोक्त परिणामों जिसकी ऑिंडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई, को 4 फरवरी 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।

.) इन वित्तीय परिणामों को इंड एएस नियमावली (यथा संशोधित के साथ पठित कम्पनी के अधिनियम, 2013 कं धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किया गया है। निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर पैटबैक बिजनेस लिमिटेड के लिख

पवन कुमार मित्तल (निदेशक DIN: 00749265

(0.01)

सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अहम : राजनाथ

बंगलुरु, ५ फरवरी (भाषा)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत की सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना महत्त्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने अधिकारियों से आइडेक्स (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवोन्मेष) के तहत स्टार्टअप संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान को भी बढ़ाने को कहा। सिंह ने कहा कि मैंने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष

जनरल बिपिन रावत से बात की थी और उन्होंने भी इस बात पर चिंता जताई थी कि हमारे आइडेक्स स्टार्टअप के लिए राशि बहुत कम है।

जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड

(CIN:L17111UP1974PLC003979)

पंजीकृत कार्यालय : 19 किमी, हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पो.ऑ. गुलावटी, जिला बुलन्दशहर,

उत्तर प्रदेश-203408, टेली. नं. 05732-228057

कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 12, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सेक्टर-बी-1, वसन्त कुंज,

नई दिल्ली-110 070, फोन : (011) 40322100, फैक्स: (011) 40322129

ई-मेल : cs jpoly@jindalgroup.com, वेबसाइट : www.jindalpoly.com

आम बैठक/पोस्टल बेलट को सूचनाएँ प्राप्त करने हेतू मेल के पंजीकरण के लिए

सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए, सेबी परिपत्र

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामले

मन्त्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 1:

अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से कम्पनियों को वीसी य

ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ईओजीएम आयोजित करने की अनुमित दी है और सूचनाएँ केवल उन्हीं शेयरधारको

पुनः, उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार पोस्टल बैलट प्रक्रिया के मामले में, सुचनाएँ केवल उन्हीं शेयरधारकों के पार

यदि ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत नहीं है तो ईओजीएम/एजीएम/पोस्टल बैलट आदि की

भौतिक। फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र (फ्रान्ट एंव बैक) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन

धारिता | कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की ग

हैदराबाद 500 032 के पास या suresh.d@kfintech.com पर अनुरोध भेजें।)

https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx

डीमैट किपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह से प्रक्रिया का

प्राप्त करने के लिये अपने डीपी के पास अपने बैंक के विवरणों को भी अद्यतन कराऐं।

उपर्युक्त सुचना कम्पनी के सभी सदस्यों की सुचना और लाभ के लिए निर्गत की जा रही है और यह एमसीए

जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

सीआईएन : L65923UP2012PLC051433

पंजीकृत कार्यालय : 19 किमी, हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पो.ऑ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश-203408

मुख्य कार्यालय : प्लॉट नं. 12, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सेक्टर-बी-1, वसन्त कुंज,

नई दिल्ली-110 070

दूरभाष : 011-26139256; 40322100

वेबसाइट : www.jpifcl.com ई-मेल : cs_jpifcl@jindalgroup.com

आम बैठक पोस्टल बैलट की सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु मेल के पंजीकरण के लिए

यह सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए, सेबी परिप

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित कॉर्पोरेर

मामले मन्त्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं

17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 202

के माध्यम से कम्पनियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ईओजीएम आयोजित करने की

अनुमित दी है और सूचनाएँ केवल उन्हीं शेयरधारकों के पास भेजी जायेंगी जिनके ई-मेल पते

पुनः, उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार पोस्टल बैलट प्रक्रिया के मामले में, सुचनाएँ केवल उन्हीं शेयरधारव

के पास इलेक्टॉनिक रूप से भेजी जायेंगी जिनके ई–मेल पते कम्पनीँ/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ

यदि ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत नहीं है तो ईओजीएम/एजीएम/पोस्टर

बैलट आदि की सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया इसे पंजीकृत कराने की निम्नलिखित प्रक्रिया क

suresh.d@kfintech.com पर अनुरोध भेजें।)

का अनुसरण कर अपना ईमेल पता पंजीकृत कराएें।

को भी अद्यतन कराऐं।

यह एमसीए परिपत्र(त्रों) तथा सेबी परिपत्र के अनपालन में है।

फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र (फ्रान्ट एंव बैक) की स्कैन की गई प्रति

पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वत

सत्यापित स्कैन की गई प्रति) उपलब्ध कराते हुए ई-मेल पते के पंजीकरण के लिये कम्पनी व

रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट्स, डी. सुरेश बाबू, उपप्रबन्धक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट

लिमिटेड (युनिट जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32

कृपया, यदि पहले से वह पंजीकृत नहीं है, तो फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए हमारे आरटीए

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पन

https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx

कपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह से प्रक्रिया

कपया कोई कॉर्पोरेट लाभ प्राप्त करने के लिये अपने डीपी के पास अपने बैंक के विवरणों

कृते जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

लिमिटेड) के पास मूल निरस्त चेक के साथ अपने बैंक का विवरण भेजें।

आप अपना ई-मेल निम्नलिखित लिंक पर भी पंजीकृत कर सकते हैं :

उपर्युक्त सूचना कम्पनी के सभी सदस्यों की सूचना और लाभ के लिए निर्गत की जा रही है और

गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500 032 के पास

आप अपना ई-मेल निम्नलिखित लिंक पर भी पंजीकृत कर सकते हैं

अपने बैंक का विवरण भेजें।

धारिता । अनुसरण कर अपना ईमेल पता पंजीकृत कराएें।

परिपत्र(त्रों) तथा सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत हैं।

स्थान : दिल्ली

पंजीकत हैं।

भौतिक धारिता

तिथि : 5 फरवरी, 2021

प्रति) उपलब्ध कराते हुए ई-मेल पते के पंजीकरण के लिये कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट्स डी. सुरेश बाबू, उपप्रबन्धक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट जिन्दल पॉली फिल्म्

लिमिटेड), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा

कृपया, यदि पहले से वह पंजीकृत नहीं है, तो फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए हमारे आरटीए केफिन

टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (युनिट जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड) के पास मूल निरस्त चेक के साथ

कृपया कोई कॉर्पोरेट लाभ अर्थात् एनएसीएच (नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) द्वारा लाभांश आदि

कृते जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड

संजीव कुमा

(कम्पनी सचिव

इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जायेंगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत हैं।

सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया इसे पंजीकृत कराने की निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करें

के पास भेजी जायेंगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत हैं।

सचिव रक्षा उत्पादन और सचिव रक्षा देखें कि यह किस तरह बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि यह बहुत कम है। बंगलुरु में एअरो इंडिया-2021 में 'स्टार्टअप मंथन' को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सामरिक स्वायत्तता के लिए रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आइडेक्स पहल हमारे देश में तैयार एक बहुत प्रभावी और अच्छी तरह क्रियान्वित रक्षा स्टार्टअप प्रणाली है। मेरा मानना है कि यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की सच्ची भावना में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में निर्णायक

आइडेक्स पहल की शुरुआत अप्रैल 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमइ), स्टार्टअप, नवोन्मेषक, अनुसंधान और विकास संस्थान आदि की साझेदारी के साथ रक्षा और एअरोस्पेस में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना व नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास को मजबूत करना है।

सिंह ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के बाद यह अभियान पूरी तरह सफल रहा है और आज 41,000 से अधिक स्टार्टअप हैं और इनमें 4.7 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं।

रे पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर,

ਪਿਲਤਾ ਕੀਬੀ – 682015 दूरभाष : 0484 2501306, फैक्स : 0484 2370897 वेबसाइट/Website: www.cochinshipyard.com; CIN: L63032KL1972GOI00241

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के (सूचीबद्ध विनियम) विनियम 47 के साथ पढ़ित विनियम 29 के अनुसार, एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के स्टैंडअलॉन और समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार करने तथा अनुमोदित करने केलिए दिनांक 12 फरवरी 2021 को कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक आयोजित करने केलिए निर्धारित है।

उक्त सूचना कंपनी के वेबसाइट http://www.cochinshipyard.com से ली जा सकती है और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों http://www.bseindia.com और http://www.nseindia.com से भी ली जा सकती है। इसके अनुसरण में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिभृतियों को संभालने में अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध हेतु आचरण और आंतरिक प्रक्रिया संहिता के अधीन बंद अवधि (अर्थात ट्रेडिंग विन्डो की समाप्ति) दिनांक 22 दिसंबर, 2020 से शुरू हुआ था जो दिनांक 12 फरवरी 2021 को परिणाम प्रकाशित करने के बाद 48 घंटे में समाप्त होगी।

कृते कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

शगुन बाजपेई

05.02.2021

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड (''कम्पनी'') के निदेशक मंडल की बैठक भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी जिसमें

अन्य बातों के साथ-साथ निम्न पर विचार और अनुमोदन किया जायेगा (क) 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित स्टैण्डएलोन एवं समेकित

(ख) वित्त वर्ष 2020-21 हेतु अन्तरिम लाभांश की घोषणा तथा भुगतान। (ग) अन्तरिम लाभांश के भगतान हेत रिकार्ड तिथि का निर्धारण।

उपर्युक्त सुचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.raclgeartech.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

अर्थात www.bseindia.com पर उपलब्ध है। पुनः सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों तथा इनसाइडरों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित,

निगरानी तथा रिपोर्ट करने के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार ट्रेडिंग विंडो शुक्रवार, 1 जनवरी, 2021 से कम्पनी के उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घण्टे पश्चात तक बन्द कर दी गयी है। कृते आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड

स्थान : नोएडा ACS:18087 तिथि : 5 फरवरी, 2021

कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड

(पूर्व का जिन्दल फोटो इमेजिंग लिमिटेड)

सीआईएन : L22222UP2011PLC103611 पंजीकृत कार्यालय : 19 किमी, हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पो.ऑ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203408

कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 12, सेक्टर-बी-1, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110 070 दूरभाष : (011) 40322100, फैक्स : (011) 40322129 ई-मेल : cs_uphoto@universusphotoimagings.com; वेबसाइट : www. universusphotoimagings.com आम बैठक/पोस्टल बैलट की सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु मेल के पंजीकरण के लिए

यह सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए, सेबी परिपत्र

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 202 के माध्यम से कम्पनियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ईओजीएम आयोजित करने की अनुमित दी है और सुचनाएँ केवल उन्हीं शेयरधारकों के पास भेजी जायेंगी जिनके ई-मेल परे कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत हैं।

पुनः, उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार पोस्टल बैलट प्रक्रिया के मामले में, सचनाएँ केवल उन्हीं शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जायेंगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी∕डिपॉजिटरी भागीदार के साथ

यदि ई–मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत नहीं है तो ईओजीएम/एजीएम/पोस्टल बैलट आदि की सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया इसे पंजीकृत कराने की निम्नलिखित प्रक्रिया क

भौतिक धारिता फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र (फ्रान्ट एंव बैक) की स्कैन की गई प्रति पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वत सत्यापित स्कैन की गई प्रति) उपलब्ध कराते हुए ई-मेल पते के पंजीकरण के लिये कम्पनी के

रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट्स, डी. सुरेश बाबू, उपप्रबन्धक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32 गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500 032 के पास suresh.d@kfintech.com पर अनुरोध भेजें।) कृपया, यदि पहले से वह पंजीकृत नहीं है, तो फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए हमारे आरटीए केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड) के पास मूल निरस्त चेक के साथ अपने बैंक का विवरण भेजें।

आप अपना ई-मेल निम्नलिखित लिंक पर भी पंजीकृत कर सकते हैं: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx

कपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह से प्रक्रिया का अनुसरण कर अपना ईमेल पता पंजीकृत कराऐं। कृपया कम्पनी द्वारा अपने खाते में एनएसीएच (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस) द्वार

लाभांश आदि कोई कॉर्पोरेट लाभ प्राप्त करने के लिये अपने डीपी के पास अपने बैंक के विवरणे को भी अद्यतन कराऐं। उपर्युक्त सूचना कम्पनी के सभी सदस्यों की सूचना और लाभ के लिए निर्गत की जा रही है और यह

एमसीए परिपत्र तथा सेबी परिपत्र के अनुपालन में है। कृते युनिवर्सस फोटो इमेजिंग लिमिटेड

तिथि : 5 फरवरी, 2021

सुरेश कुमार (कम्पनी सचिव) एसीएस : 41503



स्थान : दिल्ली

तिथि : 5 फरवरी, 2021

प्राधिकृत अधिकारी

कार्वी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये

पीएनबी गिल्टस लिमिटेड (CIN: L74899DL1996PLC077120) . पंजीकृत कार्यालयः 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

वेबसाइटः www.pnbgilts.com, ईमेलः pnbgilts@pnbgilts.com, फोनः 011-23325759, 23325779, फैक्सः 011-23325751, 23325763

घनश्याम दास सिंघल

डीआईएन : 0070801

(प्रबन्ध निदेशक)

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम का सार

🔫 लाख में) 9 माह 3 माह समाप्त समाप्त समाप्त समाप्त समाप्त समाप्त विवरण 31.12.2020 30.09.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.03.2020 (समीक्षित) (समीक्षित) (समीक्षित) (समीक्षित) (समीक्षित) (अंकेक्षित) 32,299.03 21,848.38 21,667.07 95,979.43 60,617.11 88,224.45 1. प्रचालनों से कुल आय 2. अवधि का शुद्ध लाम/(घाटा) (कर, आपवादिक तथा/ 22,323.20 2,249.19 7,015.92 62,615.15 19,895.56 33,102.15 अथवा असाधारण मदों से पूर्व) 3. अवधि का कर पूर्व शुद्ध लाम / (घाटा) (आपवादिक तथा / 22,323.20 2,249.19 5,698.08 11,773.98 24,980.57 62,615.15 अथवा असाधारण मदों के उपरान्त) अवधि का कर उपरान्त शुद्ध लाभ / (घाटा) 8,734.02 16,706.67 1,679.77 4,409.63 46,825.33 18,635.46 (आपवादिक तथा / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त) अविध की कुल व्यापक आय (इसमें अविध 16,653.82 1,729.95 4,403.97 8,691.31 18,520.27 का कर उपरान्त शुद्ध लाभ / (घाटा) और कर 46,793.86 उपरान्त अन्य व्यापक आय सम्मिलित है) 18,001.01 18,001.01 18,001.01 18,001.01 18,001.01 18,001.01 6. इक्विटी शेयर पूंजी आय प्रति इक्विटी अंश (₹ 10 प्रत्येक की) (सतत तथा असतत कार्य संचालन के लिए)* मूल : (१ /अंश) 0.93 2.45 26.01 4.85 10.35 9.28 घटाकर : (र /अंश) 0.93 2.45 26.01 4.85 10.35 9.28

*तिमाही और नौमाही अवधि की प्रति अंश आय, वार्षिक नहीं है।

उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीकरण दायितव और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत् स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किये गए समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाईट website www.pnbgilts.com पर भी उपलब्ध है। बोर्ड की ओर से और उन्ही के लिए

(विकास गोयल)

दिनांकः 04.02.2021 प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्थानः नई दिल्ली

www.readwhere.com